



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]
No. 61]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2007/माघ 24, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2007/MAGHA 24, 1928

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 78(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयकर विभाग (समूह 'ग') पर्यवेक्षक ग्रेड-II के पद हेतु भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, आयकर विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, आयकर विभाग, कार्यालय अधीक्षक समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

(क) किसी स्थापन इकाई में पदों पर परन्तु प्रोन्नति द्वारा भर्ती केवल उस विशिष्ट इकाई के कांडर से संबंधित व्यक्तियों में से ही की जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, यदि वह लोक हित में या अनुकंपा आधार पर ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, जो मामले की परिस्थितियों के आधार पर विनिर्दिष्ट करे, स्थापन इकाई के किसी पद को, किसी दूसरी इकाई के कांडर से संबंधित व्यक्ति से, उस इकाई को स्थानान्तरण से भरने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(ग) संबद्ध ग्रेड/पद में सीधी भर्ती/प्रोन्नति/आमेलन से कर्मचारियों की ज्येष्ठता, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यालय अधीक्षक	2530*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	5500-175- 9000 रुपये	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
(11)	(12)				
प्रोन्नति	प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ कर सहायक (5000-8000), जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।				

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

- (1) आयकर आयुक्त (मुख्यालय) प्रशासन —अध्यक्ष
 (2) आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय)। —सदस्य
 जहाँ आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) नहीं हैं, उस स्थान पर ज्येष्ठतम आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त
 (3) स्थानीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क —सदस्य
 अपर/संयुक्त आयुक्त

[मि. सं. ए-12018/3/2001-प्रशा.-7]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2007

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Income-tax Department (Group 'C') Recruitment Rules, 1990, for the post of Supervisor Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Office Superintendent in the Ministry of Finance, Income-tax Department, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Income-tax Department (Office Superintendent) Group 'B' Non-gazetted Post Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be specified as in columns 5 to 14 of the said Schedule :—

- (a) Recruitment by promotion against posts in an Establishment Unit shall be made only from amongst persons belonging to the cadres of that particular unit.
- (b) The Central Board of Direct Taxes may, if it considers to be expedient or necessary in the public interest or on compassionate grounds so to do, and subject to such conditions as it may specify having regard to the circumstances of the case and for reasons to be recorded in writing, permit a post in Establishment Unit to be filled by transfer to that Unit of a person belonging to the cadre of another Unit.
- (c) Seniority of the employees on direct recruitment/promotion/absorption in the relevant grade/post shall be determined as per the instructions issued from time to time by the Central Government.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection Post	Whether the benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Office Superintendent	2530 *(2007) *Subject to variation depending on workload.	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)		(8)	(9)		(10)
Not applicable		Not applicable	Not applicable		Two years
Method of recruitment : Whether by direct recruitment by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			Grade from which recruitment by promotion/deputation/absorption/short-term contract re-employment is to be made		
(11)			(12)		
Promotion.			Promotion : Senior Tax Assistants (Rs. 5000-8000) with three years' regular service in the grade. Note. —Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.		
If a Departmental Promotion Committee (DPC) exists, what is its composition			Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment		
(13)			(14)		
Group 'C' DPC			Consultation with Union Public Service Commission not necessary.		
1. Commissioner of Income Tax (Headquarters) Administration	—Chairperson				
2. Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Headquarters). Where there is no Additional/Joint Commissioner of Income Tax (Headquarters), the senior-most Additional/Joint Commissioner of Income Tax at the station	—Member				
3. Local Additional/Joint Commissioner of Customs and Central Excise					

[F.No. A-12018/3/2001-Ad-VII]

S. R. MEENA, Under Secy.